



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1945 (श10)  
(सं0 पटना 272) पटना, शुक्रवार, 15 मार्च 2024

गन्ता उद्योग विभाग

अधिसूचना

14 मार्च 2024

सं० 01/स्था० राज०-288/2024/258—बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ईख सेवा के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-9 (₹53,100-1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान ईख पदाधिकारी के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क्र०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	गृह जिला	जन्मतिथि	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	134285	श्री पुष्कर राज, नवनियुक्त ईख पदाधिकारी, पिता—श्री बेंकट गोपाल, पता—ईस्ट इंदिरा नगर, रोड सं०-1, लाईन-5, नियर आर०एम०एस०कॉलोनी डाकघर—लोहिया नगर, थाना—कंकड़बाग, पटना, बिहार—800020।	पटना	19.02.1994	50	01	

2. चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में उपर्युक्त वर्णित अभ्यर्थी की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस औपबंधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छः माह के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर तब तक विस्तारित होता रहेगा, जब तक कि प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाय।

3. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इनकी सेवा तत्काल के प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-3454 दिनांक-28.02.2024 के आलोक में नवनियुक्त ईख पदाधिकारी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-3454 दिनांक-28.02.2024 के आलोक में नवनियुक्त ईख पदाधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि 01 वर्ष की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
  6. वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-21.08.2005 एवं पत्रांक-768 पे.को. दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा।
  7. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग (पूर्व में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
  8. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई भत्ता देय नहीं होगा।
  9. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
  10. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर नवनियुक्त ईख पदाधिकारी निश्चित रूप से अपना योगदान गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना में देना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा यह समझा जायेगा कि योगदान करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी।
  11. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अंतर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी को अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**सुमन गुप्ता,**  
 सरकार के उप सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**  
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**  
**बिहार गजट (असाधारण) 272-571+10-डी0टी0पी0**  
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>